

Board Exam - 2023

Sub. - Hindi

Class - 10th

Important questions

M.M. 80

Time: 3-15 Hrs.

सबसे पूर्ण प्रश्न

खण्ड 'अ'

4. निम्नीलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए -

अनुशासन ही वह कुंजी है, जिससे हम जीवन का विकास कर पाते हैं तथा सफलता के अनेक-चरण छूते हैं। यदि हम देखें तो समूची पृथ्वी भी एक अनुशासन से बंधी हुई है। सूर्य का निरंतर प्रति एक ही दिशा में उगना तथा उसी तरह अस्त होना अनुशासन के प्रमाण हैं। चंद्रमा, तारे, वादल सबका अनुशासन है। जब किसी का अनुशासन भंग होता है तब कुछ अप्रतिष्ठित तथा विध्वंसकारी घटनाएँ घटित होती हैं। समुद्र में ज्वार-भाटा आने पर भी समुद्र प्रभावित रहता है। एक निश्चित गति पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना भी अनेक उपग्रहों का अपनी गति से गतिमान रहना उनके अनुशासन का ही परिणाम है। ठीक उसी प्रकार विद्यार्थी के जीवन में भी अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। विद्यार्थी-जीवन व्यक्तित्व के लक्षण साधना का काल है जिससे वह स्वयं शारीरिक, मानसिक तथा स्वभाविक निर्माण करता है।

(i) उपर्युक्त गद्यांश का सारांश है -

(अ) अनुशासन

(ब) अनुशासन के प्रकार

(स) अनुशासन का महत्व (द) विद्यार्थी जीवन में

अनुशासन का महत्व।

By - Nitesh

शंकु प्रक्षेप

प्रश्न ह क्योंकि इसमें

ता की मात्रा बढ़ जाती है।

60° और 70° की कोण बनाती रेखाएँ खींची जो वृत्त खण्ड की परिधि को उन्हीं बिन्दुओं पर काटती हैं। इन अक्षांशों में 40° अक्षांश मध्य में होने के कारण मानक

(ii) व्यक्ति के जीवन का साधनाकाल है -

(अ) बाल्यकाल (ब) वानप्रस्थकाल (स) विद्यार्थीजीवन
(द) उपर्युक्त सभी

(iii) अनुशासन के प्रमाण बताइये।

(iv) जीवन का विकास करने के लिए अनुशासन को क्या माना गया है?

(v) व्यक्ति के जीवन का गहरा महत्व किससे है?

9 निम्नलिखित अपठित काव्यांश की पहचान करने के उत्तर दीजिए।

वह स्वाधीन कितान रहा, अन्धमान भरा आँखों में इसका।
छोड़ उसे भ्रमधार आज, संसार रुगार सद्युश वह खिसका।
लहराते हैं खेत दृगों में, हुआ बदखल ग्रहप्रव जिनसे।
हँसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तून तूनसे।
आँखों में ही धूमा करता, ग्रह उसकी आँखों का तारा
कारकुन की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा
बिना दया-दर्पण के धरनी स्वर्ग चली आँखें आती और
देख देखा कंठिना दुध मुँही बिटिया दो दिन बाद गई मर
उजरी उसके सिवा कितसे रुव पास दुहाने आने देती ?
ग्रह आँखों में जन्मा करती उजड़ गई जो सुख की खेती

(vi) उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है ?

(vii) इस काव्यांश में कि सी पीड़ा का वर्णन है ?

(viii) कारकुन का शाब्दिक अर्थ है ?

(ix) "आँखों का तारा होना" का तात्पर्य है ?

डिप्टी - निरेश

4. यह प्रश्न एक प्रधान अक्षांश शंकु प्रक्षेप का है।
दो प्रधान अक्षांश होने के कारण शुद्धता की मात्रा बढ़ जाती है।
अवगुण (Demerits) -
1. दोनों प्रधान अक्षांशों के ऊपर नीचे अनुमाप अशुद्ध
2. ध्रुव की एक चाप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो
मात्र होता है।

FOR OTHER SUBJECT - CLICK HERE

- (x) पीडित वर्ग की आँखों में चमक कम आती है।
 (xi) जार्ज पंचम की नाक कहानी का उद्देश्य है।
 (xii) माता का आँचल कृति के रचनाकार है।

9. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

6x1=6

- (i) जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, उसे _____ कहते हैं।
 (ii) अव्यय के प्रकार _____ होते हैं।
 (iii) वचन शब्द में _____ लिंगों का बँध होता है।
 (iv) पुरुष वाचक सर्वनाम के भेद _____ होते हैं।
 (v) उपसर्ग शब्द के _____ जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं।
 (vi) राजपूताना शब्द का मूल शब्द एवम् प्रत्ययकी
 अलग-अलग कीजिए।

10. त्रिभुजलिखित अतिमधुत्कालिक परमों के उत्तरलगाभग
 20 शब्दों में लिखिए -

12x1=12 अंके

- (i) संधि कितने कहते हैं? बंदों के नाम लिखिए।
 (ii) कर्मधारय समास के दो उदाहरण लिखिए।
 (iii) "आँखें - मूँदना" - मुहावरों का अर्थ लिखिए।
 (iv) 'अंधों में राजा राजा' लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग लिखिए।
 (v) उद्धव के व्यवहार की तुलना किस-किस से की गई है?
 (vi) राम लक्ष्मण परसुराम संवाद राम परितमनस के किस मांडसे
 लिखा गया है।
 (vii) कवि देव के दो काव्यों के नाम लिखिए।
 (viii) कैप्टन की आरीरिक अवस्था किस प्रकार की थी?

By Nitesh

- (ix) भगत का आत्म सम्मान किस बात से प्रकट होता था ?
 (x) लंछक यशपाल का ध्वजे में किन क्रांतिकारियों से परिचय हुआ ?
 (xi) लंछक के अनुसार मृदंग कब बजती है ?
 (xii) गोपियों ने तैल की गगरी सा दृश्य किसे बताया है ?

खण्ड - 'ब' By Nitesh

- लंछक रात्मक प्रश्न (उत्तर सीमा 40 शब्दों में)
4. गोपियों ने अपने आप को अबला और भाली क्यों कहा है ?
 5. "सु तो व्याधि हमको ले आए" यहाँ गोपियों ने व्याधि किसे बताया है और क्यों ?
 6. परसुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन-कौन से तर्क दिए ?
 7. लक्ष्मण के कुल में किन-किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है और क्यों ?
 8. कवि ने "ब्रजदूत" क्यों कहा है तथा उन्हें बंसार की लीला मंदिर का दीपक क्यों बताया है ?
 9. कवि देव ने वसंत का बालरूप में जो वर्णन किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए ।
 10. पान वाला कैप्टन के प्रति कैसी लीला चखता था ?
 11. कैप्टन मूर्ति का चरमा वार-2 क्यों बदल देता था ?
 12. भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती ?
 13. बालगोविन भगत सद गृहस्थ थे - पर आप कैसे कह सकते हैं ?

14. लक्ष्मण का वचन का नाम बताइये ? उसके पिता उसे श्रीमानाथ कहकर क्यों पुकारते थे ?

15. कलसी दासजी का जीवन व कृतित्व परिचय लिखिए।

16. स्वयं प्रकाश का जीवन व कृतित्व परिचय लिखिए।
पृष्ठ - 15

17. निम्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करें -
हाल ही साहब की पहलव कुछ बड़ा विचित्र लगा और कौं ठहलभरा लग रहा था। इन्ही रव्यालों में जो ए डूए पान के पैसों चुकाकर, चश्मे वाले की देश-अस्ति के समझ नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चलै फिरा रुके, पीछे मुड़े और पानवाले के पास जाकर रूखा म्या के बदन चश्मेवाला नेता जी का साथी हैं ? या आजाद हिन्द जीज का ब्रत पूर्व सिपाही ?

18. निम्नांकित पठित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करें। (1+2=3)
बिहारी लखनवाले मृदु बानी। अहो मुनीसु महाब्रह्मानी ॥
पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारु। चहत उडावत छुंकि पहारु ॥
इयो कुमठउ बतिग्रा की उ नाहिं। ते नरजनी देखि मारि जाहि ॥
देखि कुठारु सरासन बाना। में कछु कहा सहित अग्निमात्रा ॥

19. बालगीबिन भगत को साधु क्यों कहा गया है ? विस्तार से वर्णन कीजिए।

नवाब साहब ने अपने खानदानी रहस्य होने का आवकित प्रकाश प्रकट किया है ? पाठ के आधार पर वर्णन करें।

By Nitesh

२०. गोपियों द्वारा 'हमारे हरिहारिल की लकड़ी' कहने का न्या
लात्पर्य है। सरकार के पद के आधार पर लिखिए। ७२
रुवि देव द्वारा रचित पदों में व्यंग्य भाव-सौंदर्य पर प्रकाश
डालिए।

२१. निम्न में से किसी एक विषय पर ३००-४०० शब्दों में
सारगर्भित निबंध लिखिए।

(अ) राष्ट्रीय एकता (ब) पर्यावरण प्रदूषण (कारण
प्रिवारण (स) मातृभाषा और उसका महत्व (द) अनुशासन

२२. अपने प्रधानाचार्य की बस चालक द्वारा बस तेज
चलाने व ठीक समय पर रुकाने पर पहुँचने की
शिकायत करते हुए पत्र लिखिए।

आपके छोटे भाई ने बोर्ड की परीक्षा में महत्वपूर्ण
स्थान प्राप्त किया है। पुरस्कार में वह पिताजी से मोटर
साइकिल चाहता है। उसे पत्र लिखकर समझाइए कि
वयस्क होने से पहले वाहन चलाना ठीक नहीं है।

२३. सत्कार संगीत सभा, उदयपुर द्वारा संगीत
प्रतियोगिता का विज्ञापन तैयार कीजिए। ४ अंक

By - Poojesh

FOR OTHER SUBJECT - CLICK HERE